

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन लोकल गैर-लाभ और चेरिटेबल संगठनों की हिमायत में सहायता के लिए लगभग 600,000 डॉलर का योगदान दे रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (6 मई, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 5,000 डॉलर से 25,000 डॉलर तक के मूल्य की ग्रांट्स के साथ, एडवांस ब्रैम्पटन फंड (Advance Brampton Fund) के द्वारा, 64 लोकल गैर-लाभ संगठनों और 2022 में रजिस्टर्ड चैरिटीज की हिमायत में मदद के लिए, लगभग 600,000 डॉलर का योगदान दे रही है।

यह फंडिंग उन महत्वपूर्ण प्रोग्रामों को डिलीवर करने में मदद के लिए जरूरी है, जिन पर कम्युनिटी निर्भर करती है क्योंकि ब्रैम्पटन, लगातार कोविड-19 (COVID-19) महामारी से बाहर निकल रहा है। एडवांस ब्रैम्पटन फंड के द्वारा जिन संगठनों को सहायता दी गई है, उनमें शामिल हैं, असीस फाउंडेशन (Asees Foundation), लेडी बैलर्स कैम्प (Lady Ballers Camp), वन वॉयस वन टीम यूथ लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन (One Voice One Team Youth Leadership Organization), पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसिज (Punjabi Community Health Services), बिग ब्रदर्स, बिग सिस्टर्स ऑफ पील (Big Brothers, Big Sisters of Peel), बोज़ आर्ट्स ब्रैम्पटन (Beaux Arts Brampton) तथा अन्य। 2022 के एडवांस ब्रैम्पटन फंड के ग्रांटीज की पूरी सूची, brampton.ca/abf पर प्राप्त की जा सकती है।

ब्रैम्पटन के बुजुर्ग, कोविड-19 महामारी के दौरान अलग रहने और उपलब्ध संसाधनों की कमी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। [इंडस कम्युनिटी सर्विसिज \(Indus Community Services\)](#) के लिए, “एडवांसड ब्रैम्पटन फंड, उनकी संस्कृतियों को दर्शाने और कला, बातचीत के द्वारा कौशलों को बढ़ाने, व्यायाम, शिक्षा और स्वस्थ खानपान में, हमारे बुजुर्गों की हिमायत करने में हमारी सहायता करेगा। हमें, हमारे क्लाइंट्स को व्यक्तिगत और वर्चुअल (आभासी) तौर पर यह प्रोग्रामिंग पेश करने पर खुशी है।”

ब्रैम्पटन एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर है और [असीस फाउंडेशन \(Asees Foundation\)](#) सक्रिय रहने के महत्व को समझती है। “एडवांस ब्रैम्पटन फंड हमें, हमारी कम्युनिटी में युवाओं और अन्य व्यक्तियों के लिए हमारे, गेट एक्टिव इन्शीएटिव (Get Active Initiative) का विस्तार करने का अवसर देगा। यह योगदान, शारीरिक फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जान और समझ विकसित करने में, युवाओं की मदद करने में शानदार बदलाव ला रहे हैं।”

[लेडी बैलर्स कैम्प \(Lady Ballers Camp\)](#) के लिए, यह फंडिंग, कम्युनिटी को एक बहुमूल्य प्रोग्राम डिलीवर करने की उनकी योग्यता में सहायक थी। 2021 में ग्रांट प्राप्तकर्ताओं के तौर पर, इसने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि उनका समर कैम्प 2.0 – राइट टू लर्न राइट टू प्ले (Summer Camp 2.0 - Right to Learn Right to Play) सफल रहा था। “हमारा प्रोग्राम, ब्रैम्पटन में 246 बच्चों और युवाओं तक पहुंचते हुए, हमारी उम्मीदों से भी आगे बढ़ गया और यह बहुत-से बच्चों की ज़िंदगियों में खुशी लाया। 2021 के पतझड़ में, हमने मानसिक तंदरुस्ती प्रोग्रामिंग के साथ-साथ, एकैडमिक ट्यूटोरिंग और होमवर्क मदद प्रदान की, जो इस बेहद मुश्किल समय के दौरान महत्वपूर्ण थी।” 2022 के प्रोग्राम से फंडिंग, गरीबी में रहने वाली या इसके जोखिम वाली ब्लैक छोटी लड़कियों और यूथ को,

शारीरिक व्यायाम, मानसिक तंदरुस्ती और जरूरी एकैडमिक सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हुए, उनके 8-सप्ताह के समर कैम्प और 14-सप्ताह के बैक-टू-स्कूल प्रोग्रामिंग डिलीवर करने में, लेडी बैलर्स कैम्प में मदद करेगी।

लोकल गैर-लाभ संगठनों और चैरिटीज की अधिक सहायता के लिए, एडवांस ब्रैम्पटन फंड ने, गैर-लाभ सेक्टर डिवेलपमेंट (Non-Profit Sector Development) पर वर्कशॉप्स प्रदान करने के लिए, टोरोंटो मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी (Toronto Metropolitan University) (पहले इसका नाम रायरसन यूनिवर्सिटी (Ryerson University) था) के [जी. रेमंड चेंग स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन \(G. Raymond Chang School of Continuing Education\)](#) के साथ साझेदारी की है। ये वर्कशॉप्स, संगठनों को अपनी क्षमता बढ़ाने और सेक्टर शिक्षा और कौशल को बढ़ाने में मदद करने पर केंद्रित थीं। नवंबर 2021 के बाद, 11 सेशन आयोजित किए गए थे, जिनमें 250 से अधिक भागीदारों की मेजबानी की गई थी। अगली सीरीज की शुरुआत, पतझड़ में होगी।

एडवांस ब्रैम्पटन फंड के बारे में

एडवांस ब्रैम्पटन फंड, 600,000 डॉलर का एक कम्युनिटी-ग्रांट प्रोग्राम है, जो ब्रैम्पटन के योग्य गैर-लाभ या चेरिटेबल संगठनों को, कम्युनिटी की जरूरतों को पूरा करने वाले प्रोग्राम और सेवाएं प्रदान करने और टर्म ऑफ काउंसिल (Term of Council) प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाने के लिए फंड देता है।

तीन फंडिंग स्ट्रीम्स उपलब्ध हैं:

- **एमर्जिंग** – यह स्ट्रीम, नए और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए मेल खाते फंडों में 5,000 डॉलर तक प्रदान करती है।
डिवेलपिंग - यह स्ट्रीम, उन प्रोग्रामों के लिए मेल खाते फंडों में 12,500 डॉलर तक प्रदान करती है, जो ब्रैम्पटन में कम से कम एक बार संचालित हुए हैं।
- **एंग्लिफाइंग** – यह स्ट्रीम, उन प्रोजेक्ट्स के लिए मेल खाते फंडों में 25,000 डॉलर तक प्रदान करती है, जो ब्रैम्पटन में कम से कम दो बार संचालित हुए हैं।

ग्रांट आवेदनों का अगला राउंड, पतझड़ 2022 में खुलेगा, जो 2023 में होने वाले प्रोजेक्ट्स की हिमायत में मदद करेगा। 2022 के एडवांस ब्रैम्पटन फंड के ग्रांटीज की पूरी सूची के लिए और प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, brampton.ca/abf पर जाएं।

हवाले

“ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है और मुझे, हमारे लोकल गैर-लाभ संगठनों पर एडवांस ब्रैम्पटन फंड का प्रभाव देखकर खुशी हो रही है। जो संसाधन वे पेश करते हैं, वे बहुत ही जरूरी सहायता है क्योंकि हम लगातार कोविड-19 महामारी से बाहर निकल रहे हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“एडवांस ब्रैम्पटन फंड, केवल फंडिंग ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ प्रदान करता है और ब्रैम्पटन के हमारे गैर-लाभ संगठनों को वे प्रोग्राम और सेवाएं डिलीवर करता है, जिनकी हमारे शहर को जरूरत है। कम्युनिटी और संगठनों पर इस फंडिंग के हुए असर को देखना शानदार है, जो यह जरूरी संसाधन प्रदान करते हैं।”

- *हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कापॉरेट सर्विसिज़, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को हमारे एडवांस ब्रैम्पटन फंड के द्वारा, ब्रैम्पटन के गैर-लाभ और चेरिटेबल संगठनों के लिए फंडिंग अवसर प्रदान करके, हमारी विविध आबादी की जरूरतों की हिमायत करने पर गर्व है। हम उस सकारात्मक बदलाव को देखने के लिए उत्साहित हैं, जो ये ग्रुप, कम्युनिटी में करते हैं।”

- *पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca